

247C - Banking & Insurance (Banking & Insurance Law & Practices-II)

P. Pages : 3

GUG/W/16/5161

Time : Three Hours



Max. Marks : 80

- Notes : 1. All questions are compulsory.
2. All questions carry equal marks.

1. a) Write the significance of money market. **8**
b) Explain features of capital market. **8**

OR

- c) Explain money market and capital market and it's features. **16**
2. a) Explain Relationship between Customer and Banker. **8**
b) Explain the different types of bills of exchange. **8**

OR

- c) Explain general Relationship and Special Relationship. **16**
3. a) Explain Life Insurance. **8**
b) What is whole life policy. **8**

OR

- c) Explain the concept of ULIP and it's Advantage. **16**
4. a) Define Risk and its concept. **8**
b) Explain the different types of Insurance. **8**

OR

- c) Explain Risk, Risk transfer and Risk control. **16**
5. a) Explain secondary market. **4**
b) What is customer. **4**
c) Endowment policy. **4**
d) Principle of Risk. **4**

B.Com. Part-II (with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem IV
247C - Banking & Insurance (Banking & Insurance Law & Practices-II)

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सूचना :- 1. सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

- | | | | |
|----|----|--|----|
| 1. | अ) | मुद्रा बाजाराचे महत्त्व विषद करा. | 8 |
| | ब) | भांडवल बाजाराचे वैशिष्ट स्पष्ट करा. | 8 |
| | | किंवा | |
| | क) | मुद्रा बाजार आणि भांडवल बाजाराची संकल्पना स्पष्ट करा आणि भांडवल बाजाराची वैशिष्ट लिहा. | 16 |
| 2. | अ) | ग्राहक आणि अधिकोष यातिल सहसंबंध स्पष्ट करा. | 8 |
| | ब) | विनिमय विपत्राचे विविध प्रकार स्पष्ट करा. | 8 |
| | | किंवा | |
| | क) | सामान्य संबंध आणि विशेष संबंध या संकल्पना स्पष्ट करा. | 16 |
| 3. | अ) | जिवन विमा म्हणजे काय ? | 8 |
| | ब) | संपूर्ण जिवन विमा म्हणजे काय ? | 8 |
| | | किंवा | |
| | क) | युनिक लिंक इन्सुरन्स (ULIP) ची संकल्पना स्पष्ट करा व त्याचे फायदे स्पष्ट करा. | 16 |
| 4. | अ) | जोखीमेचा अर्थ सांगुन त्याची संकल्पना स्पष्ट करा. | 8 |
| | ब) | विम्याचे विविध प्रकार स्पष्ट करा. | 8 |
| | | किंवा | |
| | क) | जोखीम, जोखीम हस्तांतरण व जोखीम नियंत्रण या संज्ञा स्पष्ट करा. | 16 |
| 5. | अ) | दुय्यम बाजारपेठ म्हणजे काय ? | 4 |
| | ब) | ग्राहक म्हणजे काय ? | 4 |
| | क) | बंदोबस्त विमा. | 4 |
| | ड) | जोखीम तत्व स्पष्ट करा. | 4 |

B.Com. Part-II (with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem IV
247C - Banking & Insurance (Banking & Insurance Law & Practices-II)

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सूचनाएँ :- 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अ) मुद्रा बाजार का महत्व विषद कीजिए। 8
- ब) पुंजी बाजार कि विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। 8
- अथवा**
- क) मुद्रा बाजार एवं पुंजी बाजार यह संकल्पना स्पष्ट कीजिए और पुंजी बाजार कि विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। 16
2. अ) ग्राहक और अधिकोष इनका संबंध स्पष्ट कीजिए। 8
- ब) विनिमय विपत्र के विविध प्रकार स्पष्ट कीजिए। 8
- अथवा**
- क) सामान्य संबंध और विशेष संबंध यह संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 16
3. अ) जीवन विमा स्पष्ट कीजिए। 8
- ब) संपूर्ण जीवन विमा क्या है ? स्पष्ट कीजिए। 8
- अथवा**
- क) युनिक लिंक इन्सुरन्स प्लान (ULIP) की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। और उनके गुण बताईएँ। 16
4. अ) जोखिम का अर्थ बताकर उनकी संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 8
- ब) बिमा के विविध प्रकार स्पष्ट कीजिए। 8
- अथवा**
- क) जोखिम, जोखिम हस्तांतरण, और जोखिम नियंत्रण यह संज्ञा स्पष्ट कीजिए। 16
5. अ) दुय्यम बाजार के महत्व विषद कीजिए। 4
- ब) ग्राहक याने कोण होता है। 4
- क) बंदोबस्ती विमा स्पष्ट कीजिए। 4
- ड) जोखिम के तत्व स्पष्ट कीजिए। 4

munotes.in